


## वायुमंडल का दबाव

13

- आमतौर पर पाठ्य पुस्तकों में काफी सहज ढंग
- से बताया जाता है कि वायुमंडल की हवा पर
- पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इस वजह
- से हवा में भार होता है। यह भार धरती पर
- पड़ता है — यही वायुमंडलीय दबाव है। इस आम
- समझ पर सवाल उठाता हुआ यह लेख गैसों के
- अणुगति सिद्धांत द्वारा वायुमंडलीय दबाव को
- समझाने की कोशिश भी कर रहा है।



## छुईमुई का शर्माना

ज्यादातर लोगों ने छुईमुई को देखा होगा, उसकी पत्तियों को हिला-हिलाकर सिमटते भी देखा होगा। छुईमुई स्पर्श के प्रति तो संवेदनशील है ही, और किन कारकों का इसकी पत्तियों पर असर पड़ता है, छुईमुई इस सारी प्रक्रिया को किस तरह अंजाम दे पाती होगी? एक बच्चे की जिज्ञासा छुईमुई के कई आयामों को सामने लाई है।

27

# शैक्षणिक संदर्भ

अंक: 2 (50)

इस अंक में

- |     |  |
|-----|--|
| 4   | आपने लिखा  |
| 7   | इमारत की ऊंचाई कैसे नापें<br>संकलित संस्मरण            |
| 11  | खोए हुए अंतरिक्ष यात्री<br>मार्टिन गार्डनर             |
| 13  | वायुमंडल का दबाव: कुछ दबाव ...<br>मुशील जोशी           |
| 27  | लुईमुई का शर्माना<br>सवालीराम                          |
| 39  | पढ़ना-लिखना सीखना: वैकल्पिक प्रयास<br>कमलेश चंद्र जोशी |
| 49  | लसिका नंत्र<br>चेतना खरे                               |
| 67  | अपने हाथ विज्ञान: प्रायलेट प्रोजेक्ट<br>रोशनी कसाड     |
| 83  | क्या होते हैं सरकार के मायने<br>एलेक्स एम. जॉर्ज       |
| 103 | आग्विरी रात<br>रे ब्रेडबरी                             |